




| | | | |
|--|---|---|---|
|  | केंद्रीय कर आयुक्त (अपील) | |  |
| | O/O THE COMMISSIONER (APPEALS), CENTRAL TAX, | | |
| सत्यमेव जयते | वस्तु एवं सेवा कर भवन | GST Building, 7 th Floor, Near Polytechnic, Ambavadi, Ahmedabad- 380015 | |
| | सातवीं मंजिल पोलिटिकल कलेक्शन के पास: | | |
| | आम्बावाडी, अहमदाबाद-380015 | | |
|  079-26305065 | | टेलीफैक्स: 079-26305136 | |

7826 to 7830

क फाइल संख्या : File No : **V2/144/GNR/2018-19**

ख अपील आदेश संख्या : Order-In-Appeal No.: **AHM-EXCUS-003-APP-136-18-19**

दिनांक Date : **17-12-2018** जारी करने की तारीख Date of Issue:

श्री उमाशंकर आयुक्त (अपील) द्वारा पारित

Passed by **Shri Uma Shanker** Commissioner (Appeals) Ahmedabad

ग **अपर** आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, अहमदाबाद-III आयुक्तालय द्वारा जारी मूल आदेश : **30/Ref/CEX/NK/2018-19** दिनांक : **14-09-2018** से सृजित

Arising out of Order-in-Original: **30/Ref/CEX/NK/2018-19**, Date: **14-09-2018** Issued by: Assistant Commissioner, CGST, Div: Gandhinagar, Gandhinagar Commissionerate, Ahmedabad.

घ अपीलकर्ता एवं प्रतिवादी का नाम एवं पता

Name & Address of the **Appellant** & Respondent

M/s. Aneeta Technopark Pvt Ltd

कोई व्यक्ति इस अपील आदेश से असंतोष अनुभव करता है तो वह इस आदेश के प्रति यथास्थिति नीचे बताए गए सक्षम अधिकारी को अपील या पुनरीक्षण आवेदन प्रस्तुत कर सकता है।

I. Any person aggrieved by this Order-In-Appeal issued under the Central Excise Act 1944, may file an appeal or revision application, as the one may be against such order, to the appropriate authority in the following way :

भारत सरकार का पुनरीक्षण आवेदन :

Revision application to Government of India :

(1) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अधिनियम, 1994 की धारा अंतर्गत नीचे बताए गए मामलों के बारे में पूर्वोक्त धारा को उप-धारा के प्रथम परन्तुक के अंतर्गत पुनरीक्षण आवेदन अवर सचिव, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, चौथी मंजिल, जीवन दीप भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली : 110001 को की जानी चाहिए।

(i) A revision application lies to the Under Secretary, to the Govt. of India, Revision Application Unit Ministry of Finance, Department of Revenue, 4th Floor, Jeevan Deep Building, Parliament Street, New Delhi - 110 001 under Section 35EE of the CEA 1944 in respect of the following case, governed by first proviso to sub-section (1) of Section-35 ibid :

(ii) यदि माल की हानि के मामले में जब ऐसी हानि कारखाने से किसी भण्डागार या अन्य कारखाने में या किसी भण्डागार से दूसरे भण्डागार में माल ले जाते हुए मार्ग में, या किसी भण्डागार या भण्डार में चाहे वह किसी कारखाने में या किसी भण्डागार में हो माल की प्रकिया के दौरान हुई हो।

(ii) In case of any loss of goods where the loss occur in transit from a factory to a warehouse or to another factory or from one warehouse to another during the course of processing of the goods in a warehouse or in storage whether in a factory or in a warehouse.

(ख) भारत के बाहर किसी राष्ट्र या प्रदेश में निर्यातित माल पर या माल के विनिर्माण में उपयोग शुल्क कच्चे माल पर उत्पादन शुल्क के रिबेट के मामलों में जो भारत के बाहर किसी राष्ट्र या प्रदेश में निर्यातित है।

(b) In case of rebate of duty of excise on goods exported to any country or territory outside India of on excisable material used in the manufacture of the goods which are exported to any country or territory outside India.



- (ग) यदि शुल्क का भुगतान किए बिना भारत के बाहर (नेपाल या भूटान को) निर्यात किया गया माल हो।
(c) In case of goods exported outside India export to Nepal or Bhutan, without payment of duty.

ध अंतिम उत्पादन की उत्पादन शुल्क के भुगतान के लिए जो ड्यूटी क्रेडिट मान्य की गई है और ऐसे आदेश जो इस धारा एवं नियम के मुताबिक आयुक्त, अपील के द्वारा पारित वो समय पर या बाद में वित्त अधिनियम (नं.2) 1998 धारा 109 द्वारा नियुक्त किए गए हो।

- (d) Credit of any duty allowed to be utilized towards payment of excise duty on final products under the provisions of this Act or the Rules made there under and such order is passed by the Commissioner (Appeals) on or after, the date appointed under Sec.109 of the Finance (No.2) Act, 1998.

(1) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (अपील) नियमावली, 2001 के नियम 9 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट प्रपत्र संख्या इए-8 में दो प्रतियों में, प्रेषित आदेश के प्रति आदेश प्रेषित दिनांक से तीन मास के भीतर मूल-आदेश एवं अपील आदेश की दो-दो प्रतियों के साथ उचित आवेदन किया जाना चाहिए। उसके साथ खाता इ. का मुख्यशीर्ष के अंतर्गत धारा 35-इ में निर्धारित फी के भुगतान के सबूत के साथ टीआर-6 चालान की प्रति भी होनी चाहिए।

The above application shall be made in duplicate in Form No. EA-8 as specified under Rule, 9 of Central Excise (Appeals) Rules, 2001 within 3 months from the date on which the order sought to be appealed against is communicated and shall be accompanied by two copies each of the OIO and Order-In-Appeal. It should also be accompanied by a copy of TR-6 Challan evidencing payment of prescribed fee as prescribed under Section 35-EE of CEA, 1944, under Major Head of Account.

(2) रिविजन आवेदन के साथ जहाँ संलग्न रकम एक लाख रुपये या उससे कम हो तो रुपये 200/- फीस भुगतान की जाए और जहाँ संलग्न रकम एक लाख से ज्यादा हो तो 1000/- की फीस भुगतान की जाए।
The revision application shall be accompanied by a fee of Rs.200/- where the amount involved is Rupees One Lac or less and Rs.1,000/- where the amount involved is more than Rupees One Lac.

सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण के प्रति अपील:-
Appeal to Custom, Excise, & Service Tax Appellate Tribunal.

- (1) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 35- पं0बी/35-इ के अंतर्गत:-

Under Section 35B/ 35E of CEA, 1944 an appeal lies to :-

उक्तलिखित परिच्छेद 2 (1) क में बताए अनुसार के अलावा की अपील, अपीलो के मामले में सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण (सिस्टेट) की पश्चिम क्षेत्रीय पीठिका, अहमदाबाद में दूसरा मंजिल, बहुमाली भवन, असारवा, अहमदाबाद, गुजरात 380016


To the west regional bench of Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal (CESTAT) at 2nd floor, Bahumali Bhavan, Asarwa, Ahmedabad-380016 in case of appeals other than as mentioned in para-2(i) (a) above.

(2) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (अपील) नियमावली, 2001 की धारा 6 के अंतर्गत प्रपत्र इए-3 में निर्धारित किए अनुसार अपीलीय न्यायाधिकरणों की गई अपील के विरुद्ध अपील किए गए आदेश की चार प्रतियों सहित जहाँ उत्पाद शुल्क की मांग, ब्याज की मांग और लगाया गया जुर्माना रूपर 5 लाख या उससे कम है वहाँ रूपर 1000/- फीस भेजनी होगी। जहाँ उत्पाद शुल्क की मांग, ब्याज की मांग और लगाया गया जुर्माना रूपर 5 लाख या 50 लाख तक हो तो रूपर 5000/- फीस भेजनी होगी। जहाँ उत्पाद शुल्क की मांग, ब्याज की मांग और लगाया गया जुर्माना रूपर 50 लाख या उससे ज्यादा है वहाँ रूपर 10000/- फीस भेजनी होगी। की फीस सहायक रजिस्टार के नाम से रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के रूप में संबंध की जाये। यह ड्राफ्ट उस स्थान के किसी नामित सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक की शाखा का हो

The appeal to the Appellate Tribunal shall be filed in quadruplicate in form EA-3 as prescribed under Rule 6 of Central Excise(Appeal) Rules, 2001 and shall be accompanied against (one which at least should be accompanied by a fee of Rs.1,000/-, Rs.5,000/- and Rs.10,000/- where amount of duty / penalty / demand / refund is upto 5 Lac, 5 Lac to 50 Lac and above 50 Lac respectively in the form of crossed bank draft in favour of Asstt. Registrar of a branch of any nominate public sector bank of the place where the bench of any nominate public sector bank of the place where the bench of the Tribunal is situated

(3) यदि इस आदेश में कई मूल आदेशों का समावेश होता है तो प्रत्येक मूल आदेश के लिए फीस का भुगतान उपर्युक्त ढंग से किया जाना चाहिए इस तथ्य के होते हुए भी कि लिखा पढी कार्य से बचने के लिए यथार्थिती अपीलीय न्यायाधिकरण को एक अपील या केन्द्रीय सरकार को एक आवेदन किया जाता है।

In case of the order covers a number of order-in-Original, fee for each O.I.O. should be paid in the aforesaid manner notwithstanding the fact that the one appeal to the Appellant Tribunal or the one application to the Central Govt. As the case may be, is filled to avoid scripatoria work if excising Rs. 1 lacs fee of Rs.100/- for each.



(4) न्यायालय शुल्क अधिनियम 1970, यथा संशोधित की अनुसूची-1 के अंतर्गत निर्धारित किए अनुसार उक्त आवेदन या मूल आदेश यथास्थिति निर्णयन प्राधिकारी के आदेश में से प्रत्येक की एक प्रति पर रु.6.50 पैसे का न्यायालय शुल्क टिकट लगा होना चाहिए।

One copy of application or O.I.O. as the case may be, and the order of the adjournment authority shall bear a court fee stamp of Rs.6.50 paise as prescribed under scheduled-I item of the court fee Act, 1975 as amended.

(5) इन ओर संबंधित मामलों को नियंत्रण करने वाले नियमों की ओर भी ध्यान आकर्षित किया जाता है जो सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण (कार्याविधि) नियम, 1982 में निहित है।

Attention is invited to the rules covering these and other related matter contended in the Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal (Procedure) Rules, 1982.

(6) सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय प्राधिकरण (सीस्तेत) के प्रति अपीलों के मामलों में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1984 की धारा 39फ के अंतर्गत वित्तीय(संख्या-2) अधिनियम 2014(2014 की संख्या 25) दिनांक: 06.08.2014 जो की वित्तीय अधिनियम, 1994 की धारा 23 के अंतर्गत सेवाकर को भी लागू की गई है, द्वारा निश्चित की गई पूर्व-राशि जमा करना अनिवार्य है, बशर्ते कि इस धारा के अंतर्गत जमा की जाने वाली अपेक्षित देय राशि दस करोड़ रूपए से अधिक न हो

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर के अंतर्गत "माँग किए गए शुल्क" में निम्न शामिल है

- (i) धारा 11 डी के अंतर्गत निर्धारित रकम
- (ii) सेनवैट जमा की ली गई गलत राशि
- (iii) सेनवैट जमा नियमावली के नियम 6 के अंतर्गत देय रकम

→ आगे बशर्ते यह कि इस धारा के प्रावधान वित्तीय (सं. 2) अधिनियम, 2014 के आरम्भ से पूर्व किसी अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष विचाराधीन स्थगन अर्जी एवं अपील को लागू नहीं होंगे।

For an appeal to be filed before the CESTAT, it is mandatory to pre-deposit an amount specified under the Finance (No. 2) Act, 2014 (No. 25 of 2014) dated 06.08.2014, under section 35F of the Central Excise Act, 1944 which is also made applicable to Service Tax under section 83 of the Finance Act, 1994 provided the amount of pre-deposit payable would be subject to ceiling of Rs. Ten Crores,

Under Central Excise and Service Tax, "Duty demanded" shall include:


- (i) amount determined under Section 11 D;
- (ii) amount of erroneous Cenvat Credit taken;
- (iii) amount payable under Rule 6 of the Cenvat Credit Rules.

→ Provided further that the provisions of this Section shall not apply to the stay application and appeals pending before any appellate authority prior to the commencement of the Finance (No.2) Act, 2014.

(6)(i) इस आदेश के प्रति अपील प्राधिकरण के समक्ष जहाँ शुल्क अथवा शुल्क या दण्ड विवादित हो तो माँग किए गए शुल्क के 10% भुगतान पर और जहाँ केवल दण्ड विवादित हो तब दण्ड के 10% भुगतान पर की जा सकती है।

(6)(i) In view of above, an appeal against this order shall lie before the Tribunal on payment of 10% of the duty demanded where duty or duty and penalty are in dispute, or penalty, where penalty alone is in dispute."

II. Any person aggrieved by an Order-in-Appeal issued under the Central Goods and Services Tax Act, 2017/Integrated Goods and Services Tax Act, 2017/Goods and Services Tax (Compensation to States) Act, 2017, may file an appeal before the appropriate authority.



ORDER-IN-APPEAL

This order arises out of an appeal filed by M/s. Aneeta Technopack Pvt. Ltd., E/32,33,34, GIDC, Sector-26, Gandhinagar-382026 (in short 'appellant') against Order-in-Original No.30/Ref/CEX/NK/2018-19 dtd. 14.09.2018 (in short 'impugned order') passed by the Asstt. Commissioner, Central GST, Division Gandhinagar. (in short 'adjudicating authority').

2. Briefly stated that adjudicating authority vide impugned order rejected the refund claim of Rs.1,27,581/-, being amount debited due to non-submission of proof of export within stipulated time of six month, being time bar under the provisions of Section11B(1) of the Central Excise Act, 1944.


3. Aggrieved with the impugned order, the appellant filed the present appeal wherein, inter alia, stated that:

- From which date 1 year of refund has to be calculated as per Section 11B of the Central Excise Act.
- Whether they have filed refund claim on occurrence of export obligation fulfillment, which was the date of refund due, so they claim for filing of refund claim within one year was sustainable or not.

4. Personal hearing in the matter was held on 12.12.2018. Shri Vipul Khandhar, CA, appeared on behalf of the appellant and reiterated the grounds of appeal and submitted that export proceeds have been realized; that relevant date should be from the date of realization of export proceeds.

5. I have carefully gone through the appeal memorandum, submissions made at the time of personal hearing and evidences available on records. I find that the limited issue to be decided is whether the adjudicating authority has rightly rejected the refund claim on the ground of limitation or otherwise. Accordingly, I proceed to decide the case on merits.

6. Prima facie, I find that the appellant has filed the refund claim under Section 11B of the Central Excise Act, 1944 which provides that the claim shall be filed before expiry of 1 year from the relevant date. This claim arose since the appellant had exported the goods without payment of duty (i.e. under Bond) under Rule 19 of the Central Excise Rules, 2002. Conditions No.1(ii) prescribed under Notifn No.42/2001-CE(NT) dated 26.06.2001(issued under Rule 19(3)ibid) requires the appellant to submit proof of export within 6 months from the date of export or within such extended time as the Asstt./Deputy Commr of Central Excise or Maritime Commissioner may in any particular case allow. I find that no such permission is sought by the appellant in the instant case. Hence, the



appellant paid the duty, on the basis of audit objection, involved in the instant case vide RG23A Pt-II Entry No.180 dtd.20.06.2017. I find that this fact is not in dispute. Later on receipt of proof of export, the appellant filed the refund claim of Rs.1,27,581/- on 22.06.2018, under Section 11Bibid. I find that the relevant date for filing the refund claim is appropriately falls under "Explanation B(f)" given in Section 11Bibid. So, it is very much clear that the subject claim is filed after expiry of one year from the date of payment of duty i.e. 20.06.2017.


6.1 The appellant has also pleaded that whether they have filed refund claim on occurrence of export obligation fulfillment, which was the date of refund due, so they claim for filing of refund claim within one year was sustainable or not. In this regard, I find that there is no such provisions in the said Section 11B, Rule 19 of the CER, 2002 or the notification issued under Rule 19(3)ibid. It only provides for export of goods within six months from the date on which such goods were cleared for export. It also provides for payment of duty as specified in the application (i.e. ARE-1) alongwith interest in case of failure to do so. So, I do not find any such provision in the said notification as well as in Section 11Bibid. Hence, the plea of the appellant is not tenable.

6.3 The appellant have quoted some judgments of higher appellate forum. I find that those are having facts not similar to the present case hence not applicable as a whole. However, I find that in case of Saurashtra Cement Ltd. vs. CC, Jamnagar [2013(297) ELT-365 (Tri. Ahmd.)] the Hon'ble Tribunal has held as under:

"The Hon'ble High Court held that refund application made within a period of three years after discovery of mistake is not barred by limitation. However, we cannot consider this decision since such relief can be given only by the High Court or the Supreme Court and this Tribunal being a creation of statute cannot go beyond the statute"(para 8).

Similar view is taken in case of Jain Manufacturers Vs. CCE, Rajkot [2013(293) ELT-122 (Tri. Ahmd.)] wherein the Hon'ble Tribunal has held as under:

".....I find that the refund claim filed by the appellant is hopelessly delayed and Tribunal being a creation of Statute cannot go beyond the provision of law. Accordingly, taking a view that refund claim has not been filed within one year from the relevant date as per the provisions of Section 11B, the appeal is rejected"(para 7).




In view of the above, I find that the adjudicating authority has rightly rejected the claim as time barred under Section 11Bibid . Accordingly, the impugned order is upheld and the appeal filed by the appellant is rejected.

7. अपीलकर्ता द्वारा दर्ज की गई अपील का निपटारा उपरोक्त तरीके से किया जाता है।
The appeal filed by the appellant stands disposed of in above terms.

उमाशंकर

(उमा शंकर)

केन्द्रीय कर आयुक्त (अपील्स)



Attested:

by
21/01/19

(B.A. Patel)
Supdt.(Appeals)
Central GST, Ahmedabad.

BY SPEED POST TO:

M/s. Aneeta Technopack Pvt. Ltd.,
E/32,33,34, GIDC, Sector-26,
Gandhinagar-382026.

Copy to:-

- (1) The Chief Commissioner, CGST, Ahmedabad Zone.
- (2) The Commissioner, CGST, Gandhinagar (RRA Section).
- (3) The Asstt. Commissioner, CGST, Division Gandhinagar.
- (4) The Asstt. Commr(System), CGST , Gandhinagar.
(for uploading OIA on website)
- (5) Guard file
- (6) P.A. file.